



## FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



सराहनीय कार्य दिनांक 25-02-23 थाना शिकोहाबाद, फिरोजाबाद ।

थाना शिकोहाबाद पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 20-02-23 को हुए अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए दोनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

- प्रेम प्रसंग के चलते माँ ने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे जीशान को छिछामई नहर झाल में फेंक दिया था ।
- काफी खोजबीन के बाद पुलिस टीम द्वारा बच्चे को शव को बलई जनपद इटावा क्षेत्र नहर से किया बरामद ।

दिनांक 20.02.2023 को जीशान बच्चा अपने घर से बाहर निकलने के बाद गुम हो गया था । जिसके उपरान्त दिनांक 21.02.2023 को थाना शिकोहाबाद पर बच्चा जीशान के पिता मुकीम पुत्र नसीरउद्दीन निवासी रूकनपुर पजाया थाना शिकोहाबाद ने अपने चचरे भाई फरमान पुत्र गुलेशाद निवासी कटरा मीरा कुरेसियान मस्जिद के पास थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद पर शक जाहिर करते हुये मु0अ0सं0 122/23 धारा 363 भादवि लिखाया था ।

11 वर्षीय बच्चे के अपहृत हो जाने के कारण इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस फिरोजाबाद द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये अपर पुलिस अधीक्षक , ग्रामीण के नेतृत्व व श्रीमान क्षेत्राधिकारी , शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में थाना शिकोहाबाद पुलिस / सर्विलान्स टीम को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया ।

पुलिस टीम द्वारा मामले में वादी गवाहान एवं संदिग्ध फरमान से गहनता से पूछताछ करते हुये इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यो को एकत्रित किया गया एवं मुखबिरान को मामूर कर गोपनीय सूचना एकत्रित करायी गयी जिसके फलस्वरूप प्रकाश में आया कि अपहृत बच्चे की मां फरजाना एवं संदिग्ध फरमान के बीच में प्रेम संबंध थे और इन संबंधो के बारे में बच्चे जीशान अपने पिता को अवगत कराता रहता था जिसके कारण उक्त दोनो ने उसको रास्ते से हटाने की योजना बनायी तथा अभियुक्त फरमान ने दिनांक 08.02.2023 को अपना मोबाइल नम्बर बंद कर दिया तथा दिनांक 16.02.2023 को एक नया सिम खरीदा तथा घटना से पहले व पश्चात में मृतक की मां से वार्ता की है और इनके द्वारा ही इस नृशंस घटना का अन्जाम दिया गया है । तदोपरान्त दिनांक 24.02.2023 को संदिग्ध फरमान से तथ्यात्मक पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा घटना का इकबाल करते हुये अभियुक्ता फरजाना के सहयोग से अपहृत जीशान को छिछामई नहर झाल पर ले जाकर नहर में फेकना की बात स्वीकार जिसके फलस्वरूप पारिवारिक लोगो के सहयोग से नहर के किनारे किनारे खोजबीन शुरू की गयी तो बच्चे का शव थाना बलरई इटावा क्षेत्र में नहर में तैरते हुये मिला । जिसे निकाल कर आवश्यक कार्यवाही की गयी और अभियुक्त फरमान एवं फरजाना को गिरफ्तार कर अभियोग उपरोक्त में धारा 363 भादवि का लोप कर जुर्म धारा 364/302/201/120बी भादवि की बढोत्तरी की गयी । घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल को बरामद किया गया ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. फरमान पुत्र गुलेशाद निवासी कटरा मीरा कुरेसियान मस्जिद के पास एटा तिराहा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
2. फरजाना पत्नी मुकीम निवासी रूकनपुर पजाया थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

## अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 122/2023 धारा 364/302/201/120बी भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

## अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का स्थान व समय

1-अभियुक्त फरमान – दिनांक 24.02.2023 समय 12.35 बजे , बलरई नहर पुल

2-अभियुक्त फरजाना – दिनांक 25.02.2023 समय 06.30 , मकान अभियुक्ता

## अनावरण / गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 हरवेन्द्र मिश्रा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
2. निरीक्षक आलोक मिश्रा प्रभारी एसओजी टीम फिरोजाबाद
3. व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
4. उ0नि0 श्री नितिन कुमार त्यागी प्रभारी सर्विलान्स टीम फिरोजाबाद
5. उ0नि0 श्री अशेष कुमार चौकी प्रभारी मण्डी थाना शिकोहाबाद
6. हैड का0 496 रोहताश कुमार , का0 204 विक्रम सिंह , का0 962 अमन छोंकर , का0 887 उग्रसैन , हैड का0 54 ज्ञान सिंह , का0 1268 विशाल सिंह थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
7. हैड का0 प्रशान्त कुमार , हैड का0 करन सिंह , हैड का0 अमित चौहान , हैड का0 अनिल गुप्ता , का0 प्रवीण कुमार , का0 देवेन्द्र सिंह सर्विलान्स सैल फिरोजाबाद ।